

Company (कंपनी)

Private Limited Co.

- # कोई भी कं. जो कं. अधिनियम 1956 (2013) के अंतर्गत पंजीकृत
- # Members $\rightarrow$ Min^m $\rightarrow$ 2
(सदस्य) $\rightarrow$ Max^m $\rightarrow$ 200
- # No. of Director $\rightarrow$ Min^m $\rightarrow$ 2
(निदेशकों की संख्या)

Public Limited Co.

- # वह कं. जो अपने shares public को बेचती है।
- # Members $\rightarrow$ Min^m $\rightarrow$ 7
 $\rightarrow$ Max^m $\rightarrow$ No Limit
- # No. of Director $\rightarrow$ Min^m $\rightarrow$ 3

Capital Market
पूंजी बाजार



```
graph TD; A[Capital Market  
पूंजी बाजार] --> B[Primary Market  
(प्राथमिक बाजार)]; A --> C[Secondary Market  
(द्वितीयक बाजार)];
```

Primary Market
(प्राथमिक बाजार)

Secondary Market
(द्वितीयक बाजार)

Capital Market (पूंजी बाजार)

Primary Market (प्राथमिक बाजार) (द्वितीयक बाजार) Secondary Market

(New Issue Market)

इस बाजार में नए shares जारी करती हैं।

No Geographical Location

Price of shares is determined by company.


IPO & FPO

(Old Issue Market/
Already Issue Market)

इस बाजार में पहले से ही जारी shares को निवेशक आपस में खरीदते और बेचते हैं।

Geographical Location
eg. Stock Exchanges.

⇒ Stock Exchanges
↳ BSE & NSE




Methods of Issuing Shares in Primary Market (प्राथमिक बाजार shares को जारी करने की विधियाँ)

IPO (Initial Public Offerings)

(Follow on / FPO Further Public Offerings)

- ✓ ① Private Placement
- ✓ ② Right Issue
- ✓ ③ Sweat Equity


Investor (निवेशक)



→ 1996
→ Promoted by → NSE & SIDBI

→ 1999
→ Promoted by BSE

Capital Market (पूंजी बाजार)



Difference b/w Debt & Equity (संज्ञा एवं इसिक्टरी में अंतर)

Equity → Shares

- ⇒ Shares
- ⇒ Ownership
- ⇒ High Risk
- ⇒ Dividend
- ⇒ No regular / Fixed Return (यदि नहीं)
- ⇒ Cannot be converted in Debt.
- ⇒ No Tax Exemption on Dividend

Debentures &
Bonds

← Debt

- ⇒ Loan given to a Company
- ⇒ No Ownership
- ⇒ No / Low Risk
- ⇒ Interest
- ⇒ Fixed & Regular Return
- ⇒ Can be converted
- ⇒ ^{Equity} Tax is exempted on Interest.

BASIS (आधार)	DEBT (ऋण)	EQUITY (इक्विटी)
Meaning	ऋण में निवेश E.g. – Bonds, debentures.	कंपनी के शेयरों में निवेश
Ownership	नहीं, वे कंपनी के लेनदार हैं।	हां, उनका स्वामित्व हित है।
Risk	Low risk	High risk
Return Type	Pay Interest	Share Dividends.
Nature Of Return	निश्चित और नियमित	अनियमित (कंपनी के लाभ पर आधारित)

Share (शेयर)


Primary Market
(प्राथमिक बाजार)

IPO

FPO

Newly Listed Company
(नई सूचीबद्ध कंपनी)

Old Company
(पुरानी कंपनी)





Debentures (ऋणपत्र)

Debt (ऋण)

Debentures
(ऋण पत्र)

Bonds
(बॉन्ड्स)



Bonds